

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 — आश्विन 28, शक 1943

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2021

सूचना

क्रमांक एफ 11-38/2021/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला जांजगीर-चाम्पा की सीमाओं को परिवर्तित करना, नवीन जिला “सक्ती” का सृजन करना तथा उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	संभाग	नवीन जिला	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन जिला की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जांजगीर-चाम्पा	बिलासपुर	सक्ती	जिला जांजगीर-चाम्पा के उप-खण्ड-सक्ती एवं डभरा तथा तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर, नया बाराद्वार तथा डभरा को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला “सक्ती” का सृजन.	उत्तर — तहसील करतला, जिला कोरबा. दक्षिण — तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़. पूर्व — तहसील खरसिया एवं रायगढ़, जिला रायगढ़. पश्चिम — तहसील सारागांव एवं बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चाम्पा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 20th October 2021

NOTICE

No. F 11-38/2021/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of district Janjgir-Champa, to create a new district "Sakti" and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Division	New District	Nature of Change	Boundaries of new District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Janjgir Champa	Bilaspur	Sakti	Creation of new District "sakti" by inclusion of Sub-Division-Sakti and Dabhra and Tahsil Sakti, Malkhrouda, Jaijaipur, Nayabaradwar and Dabhara of Janjgir Champa District.	North - Tahsil-Kartala, District Korba. South - Tahsil Sarangarh, District Raigarh. East - Tahsil – Kharasia and Raigarh District - Raigarh. West - Tahsil Saragaon and Bamhanidih, District Janjgir Champa.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.